

## कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा नवंबर २०१८ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. दिनांक 29.11.18 के आदेश सं. 39019/05/2018-स्था.(ख) के तहत श्री अरविन्द सक्सेना, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष का पद भार संभालने की तिथि से 7 अगस्त, 2020 तक नियुक्ति के संबंध में माननीय राष्ट्रपति का अनुमोदन जारी किया।
- ii. केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के संशोधन के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 दिनांक 13.11.2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. 11012/05/2017-स्था.(ए-III) के माध्यम से अधिसूचित किए गए।
- iii. सिविल सेवा परीक्षा 2017 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों की सेवाओं अर्थात् आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, केंद्रीय सिविल सेवाएं, समूह 'क' और समूह 'ख' के आबंटन को पांचवी पुनरावृत्ति को दिनांक 20.11.2018 को अनुमोदित किया गया।
- iv. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' और 'ख' के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में 10 मामलों में (10 प्रकार्यात्मक निदेशक) नियुक्तियों को अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की उन्नीस (19) नियुक्तियों, स्वायत्त निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यकारियों की पांच (05) नियुक्तियों, मंत्रियों के निजी सचिव/नियुक्ति के दो (02) प्रस्तावों, समय विस्तार के दो (02) प्रस्तावों और पुनर्नियुक्ति (रिडेजिग्नेशन) के छह (06) प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिव/मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके अतिरिक्त, 09 अधिकारियों को सीवीओ के रूप में नियुक्त किया गया और केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव देकर 5 अधिकारी को उप सचिव/निदेशक के स्तर पर नियुक्त किए गए।
- v. सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड (एसएलएसओ) की चयन सूची में शामिल करने के लिए वरिष्ठता कोटा हेतु वर्ष 2016 एवं 2017 के लिए विचार क्षेत्र में क्रमशः 236 एवं 229 अधिकारियों को शामिल करने का कार्य किया गया है। एसएलएसओ 2016 (एसक्यू) के जोन में 201 अधिकारियों के लिए डीपीसी की गई थी जिनमें से 151 अधिकारियों को पहले ही पदोन्नति की जा चुकी है और एसएलएसओ 2017 (एसक्यू) के जोन में 7 अधिकारियों के लिए डीपीसी की गई थी जिन्हें पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है।
- vi. नवंबर के माह के दौरान आईएसटीएम में 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इनमें 04 सीएसएस-सीटीपी (स्तर ई, स्तर-ए, स्तर-डी, स्तर-एफ) एवं 01 सीएसएसएस सीटीपी (स्तर-IV) कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में भागीदारों की संख्या 586 थी।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, भिन्न-भिन्न विषयों पर इस विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं:

(क). दिनांक 15.11.18 के का.जा. सं. 22011/3/2013 स्था.(घ) के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात समीक्षा डीपीसी में फिट पाए गए सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश।

(ख). दिनांक 1.11.18 के का.जा. सं. 12/3/2016-जेसीए-2 के तहत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना, 2018 के विधान सभा चुनाव के दौरान एवं दिनांक 2.11.2018 के का.जा सं. 12/3/2016 जेसीए-2 के तहत कर्नाटक के राज्य विधान सभा चुनाव तथा लोक सभा के उप चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी प्रदान करना।